



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2519]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934

No. 2519]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012

**का.आ. 3036(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के चूरू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 68.800 कि.मी. से 118.000 कि.मी. (राजगढ़ सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने, पेव्ड शोल्डर के साथ चार/दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-खण्ड अधिकारी, राजगढ़, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

राजस्थान राज्य के चूरु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के 68.800 कि.मी. से 118.000 कि.मी. (अम्बाला-फतेहपुर-सालासर सेक्शन) के बीच राजगढ़ बाइपास ग्राम लूदीझाबर से गगौर तक तहसील राजगढ़ जिला चूरु के 68.800 कि.मी. से 118.000 कि.मी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक (तहसील) का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	चूरु	राजगढ़	(1) लूदी झाबर	1	निजी	बा. चतुर्थ	4982.2928
				4	निजी	बा. चतुर्थ	1554.5999
				2	सरकारी	गै.मु. रेलवे	3037.5796
				5	निजी	बा. चतुर्थ	9599.5026
				3	निजी	बा. चतुर्थ	15439.6190
			(2) लूदीखुवा	118	सरकारी	गै.मु. सड़क	179.7208
				119	सरकारी	गै.मु. गोचर	439.5748
				116	सरकारी	गै.मु. सड़क	1497.3463
				115	सरकारी	गै.मु. गोचर	8744.4129
				117	सरकारी	गै.मु. सड़क	2997.0897
				37	निजी	बा. चतुर्थ	78.9272
			(3) राजगढ़ ग्रामीण	624	निजी	बा. तृतीय	2949.6221
				620	निजी	बा. तृतीय	18520.0851
				601	निजी	बा. तृतीय	1128.4615
				605	निजी	बा. तृतीय	1488.8279
				604	निजी	गै.मु. सड़क	1507.9102
				566	निजी	बा. तृतीय	4672.6381
				565	निजी	बा. तृतीय	2730.9224
				564	निजी	बा. तृतीय	16803.194
				562	निजी	बा. तृतीय	12874.5258
				558	निजी	बा. तृतीय	8556.1003
				559	निजी	बा. तृतीय	152.2181
				557	निजी	बा. तृतीय	708.3506
				556	निजी	बा. तृतीय	104.8578
				552	निजी	बा. तृतीय	13750.2117
				554	निजी	बा. तृतीय	6521.1683
				553	निजी	बा. तृतीय	6984.1775
				547	निजी	बा. तृतीय	4995.797
				548	निजी	गै.मु. सड़क	518.7786
				355	निजी	बा. तृतीय	0.0400
				354	निजी	बा. तृतीय	0.02
				353	निजी	बा. तृतीय	455.3642
				352	निजी	बा. तृतीय	11283.9066

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				350	निजी	बा. तृतीय	7558.7887
				349	निजी	बा. तृतीय	11031.1284
				360	निजी	बा. तृतीय	4812.981
				68	निजी	बा. तृतीय	11647.0139
				66	निजी	बा. तृतीय	14343.4593
				65	निजी	बा. तृतीय	12686.2759
				64	निजी	बा. तृतीय	3934.0004
				63	निजी	बा. तृतीय	2659.2009
				62	निजी	बा. तृतीय	5271.8083
				60	सरकारी	गै.मु. सड़क	990.2308
				61	सरकारी	गै.मु. सड़क	198.6348
				153	निजी	बा. तृतीय	10931.9501
				159	निजी	बा. तृतीय	824.1463
				160	निजी	बा. तृतीय	17081.6688
				158	निजी	बा. तृतीय	2360.6129
				161	निजी	बा. तृतीय	5122.5599
				2242/168	निजी	बा. तृतीय	62.0901
				2243/168	निजी	बा. तृतीय	3200.0901
				2244/168	निजी	बा. तृतीय	2000.0901
				2246/168	निजी	बा. तृतीय	6500.0901
				2247/168	निजी	बा. तृतीय	3600.0901
				2251/168	निजी	बा. तृतीय	5122.0901
				169	निजी	बा. तृतीय	83.0143
				265	निजी	गै.मु. सड़क	1574.6884
				294	निजी	बा. तृतीय	4737.7541
				292	निजी	बा. तृतीय	9214.5025
				291	निजी	बा. तृतीय	29521.9078
				290	निजी	बा. तृतीय	13967.268
				619	निजी	बा. तृतीय	12783.5867
				606	सरकारी	गै.मु. रास्ता	384.0581
				338	सरकारी	गै.मु. बीड़	351.4824
				339	सरकारी	गै.मु. सड़क	40.3615
				621	सरकारी	गै.मु. पायतन	3500.8578
				612	सरकारी	गै.मु. रास्ता	502.1652
				607	सरकारी	गै.मु. पायतन	6767.0309
				549	सरकारी	गै.मु. सड़क	518.7786
				337	सरकारी	गै.मु. रास्ता	161.7004
				342	सरकारी	गै.मु. रास्ता	838.6523
				348	सरकारी	गै.मु. पायतन	1513.037
				347	सरकारी	गै.मु. पायतन	51.2257

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				69	सरकारी	गै.मु. रास्ता	94.5456
				156	सरकारी	गै.मु. रास्ता	906.1112
				295	सरकारी	गै.मु. पायतन	679.2714
			(4) मांगला	482	निजी	बा. चतुर्थ	15748.965
				488	निजी	बा. चतुर्थ	3094.7286
				584/486	निजी	बा. चतुर्थ	2673.8961
				485	निजी	गै.मु. सड़क	106.4394
				487	निजी	गै.मु. सड़क	80.9738
				497	निजी	बा. चतुर्थ	17.0302
				498	निजी	बा. चतुर्थ	3205.0719
				499	निजी	बा. चतुर्थ	13898.1963
				500	निजी	बा. चतुर्थ	1195.716
				456	निजी	बा. चतुर्थ	4798.1137
				501	निजी	बा. चतुर्थ	2150.6054
				459	सरकारी	गै.मु. रास्ता	614.1943
				455	निजी	बा. चतुर्थ	6778.9078
				452	निजी	बा. चतुर्थ	73.3831
				447	निजी	बा. चतुर्थ	8.6058
				454	निजी	बा. चतुर्थ	4890.4432
			(5) कस्बा राजगढ़	1303	निजी	बा. तृतीय	6854.9268
				1299	निजी	बा. तृतीय	3474.7128
				1302	निजी	बा. तृतीय	4538.431
				1300	निजी	बा. तृतीय	6070.9416
				1301	निजी	बा. तृतीय	6783.2397
				2218/1360	निजी	बा. तृतीय	3376.9745
				2219/1360	निजी	बा. तृतीय	3376.9745
				2195/1361	निजी	बा. तृतीय	8192.3131
				2196/1361	निजी	बा. तृतीय	8192.3131
				1459	निजी	बा. तृतीय	3376.1967
				1463	निजी	बा. तृतीय	9514.7768
				1458	निजी	बा. तृतीय	13580.6528
				1473	निजी	बा. तृतीय	6967.0377
				1472	निजी	बा. तृतीय	1148.4386
				1474	निजी	बा. तृतीय	9576.011
				2315/1453	निजी	बा. तृतीय	1880.0451
				2316/1453	निजी	बा. तृतीय	1880.0451
				2369/2366/2380/1477	निजी	बा. तृतीय	16789.0263
				1495	निजी	बा. तृतीय	10683.3389
				1496	निजी	बा. तृतीय	6370.0807

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				1498	निजी	बा.तृतीय	1498.1366
				1535	निजी	बा.तृतीय	7157.0708
				1537	निजी	बा.तृतीय	310.2126
				2268/1538	निजी	बा.तृतीय	1441.5611
				2267/1538	निजी	बा.तृतीय	1441.5611
				2266/1538	निजी	बा.तृतीय	5766.2444
				1530	निजी	बा.तृतीय	13884.1454
				1539	निजी	बा.तृतीय	1385.6494
				1529	निजी	बा.तृतीय	588.4811
				1527	निजी	बा.तृतीय	11565.2227
				2170/1525	निजी	बा.तृतीय	504.7932
				2171/1525	निजी	बा.तृतीय	504.7932
				1509	निजी	बा.तृतीय	11036.2728
				1510	निजी	बा.तृतीय	38.8307
				1512	निजी	बा.तृतीय	9355.9836
				1363	सरकारी	गै.मु. रास्ता	906.7591
				1464	सरकारी	गै.मु. रास्ता	490.3483
				1478	सरकारी	गै.मु. रास्ता	831.5706
				1501	सरकारी	गै.मु. रास्ता	902.5707
		(6)	खैमाना	114	निजी	बारानी तृतीय	746.2699
		(7)	गणौर	146	निजी	बा.तृतीय	4463.171
				145	निजी	बा.तृतीय	1777.9613
				144	निजी	बा.तृतीय	9412.4647
				143	निजी	बा.तृतीय	2612.7114
				142	निजी	बा.तृतीय	5263.9663
				151	निजी	गै.मु. सड़क	1976.6475
				422/153	निजी	बा.तृतीय	335.849
				423/153	निजी	बा.तृतीय	335.849
				420/152	निजी	गै.मु. सड़क	5047.533
				421/152	निजी	गै.मु. सड़क	5047.533
			<b>Total Area</b>				<b>311903.3881</b>

[फा. सं. भाराप्र/पीआईयू/रींगस/रारा-65/2012]

माया प्रकाश, उप-सचिव

4823 4712-2

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2012

**S.O. 3036(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening four / two laning with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 65 in the stretch of land from **Km 68.800 to Km. 118.00 (Rajgarh Section)** in the district of **Churu** in the State of **Rajasthan**, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub Divisional Officer, Rajgarh, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

## SCHEDULE

Brief Description of the land to be Acquired with or without structure Falling within the stretch of land from km. 68.800 to 118.00 km. of NH-65 (Ambala-Fatehpur-Salasar Section) for Rajgarh by pass for village Ludijhabar to Gagour Tehsil Rajgarh District Churu km. 68.800 to 118.00 in Churu District in the state of Rajasthan

Serial number	Name of district	Name of taluk (tehsil)	Name of village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in square metter
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Churu	Rajgarh	(1) Ludijhabar	1	Private	Barani IV	4982.2928
				4	Private	Barani IV	1554.5999
				2	Government	Giarmumkin Railway	3037.5796
				5	Private	Barani IV	9599.5026
				3	Private	Barani IV	15439.6190
			(2) Ludjkhooba	118	Government	Giarmumkin Sadak	179.7208
				119	Government	Gairmumkin Gochar	439.5748
				116	Government	Giarmumkin Sadak	1497.3463
				115	Government	Gairmumkin Gochar	8744.4129
				117	Government	Gairmumkin Sadak	2997.0897
				37	Private	Barani IV	78.9272
			(3) Rajgarh Gramin	624	Private	Barani III	2949.6221
				620	Private	Barani III	18520.0851
				601	Private	Barani III	1128.4615
				605	Private	Barani III	1488.8279
				604	Private	Gairmumkin Sadak	1507.9102
				566	Private	Barani III	4672.6381
				565	Private	Barani III	2730.9224
				564	Private	Barani III	16803.194
				562	Private	Barani III	12874.5258
				558	Private	Barani III	8556.1003
				559	Private	Barani III	152.2181
				557	Private	Barani III	708.3506
				556	Private	Barani III	104.8578
				552	Private	Barani III	13750.2117
				554	Private	Barani III	6521.1683
				553	Private	Barani III	6984.1775

1	2	3	4	5	6	7	8
				547	Private	Barani III	4995.797
				548	Private	Gairmumkin Sadak	518.7786
				355	Private	Barani III	0.0400
				354	Private	Barani III	0.02
				353	Private	Barani III	455.3642
				352	Private	Barani III	11283.9066
				350	Private	Barani III	7558.7887
				349	Private	Barani III	11031.1284
				360	Private	Barani III	4812.981
				68	Private	Barani III	11647.0139
				66	Private	Barani III	14343.4593
				65	Private	Barani III	12686.2759
				64	Private	Barani III	3934.0004
				63	Private	Barani III	2659.2009
				62	Private	Barani III	5271.8083
				60	Government	Gairmumkin Sadak	990.2308
				61	Government	Gairmumkin Sadak	198.6348
				153	Private	Barani III	10931.9501
				159	Private	Barani III	824.1463
				160	Private	Barani III	17081.6688
				158	Private	Barani III	2360.6129
				161	Private	Barani III	5122.5599
				2242/168	Private	Barani III	62.0901
				2243/168	Private	Barani III	3200.0901
				2244/168	Private	Barani III	2000.0901
				2246/168	Private	Barani III	6500.0901
				2247/168	Private	Barani III	3600.0901
				2251/168	Private	Barani III	5122.0901
				169	Private	Barani III	83.0143
				265	Private	Gairmumkin Sadak	1574.6884
				294	Private	Barani III	4737.7541
				292	Private	Barani III	9214.5025
				291	Private	Barani III	29521.9078
				290	Private	Barani III	13967.268
				619	Private	Barani III	12783.5867
				606	Government	Gairmumkin Rasta	384.0581
				338	Government	Gairmumkin Beed	351.4824



1	2	3	4	5	6	7	8
				339	Government	Gairmumkin Sadak	40.3615
				621	Government	Gairmumkin Paytan	3500.8578
				612	Government	Gairmumkin Rasta	502.1652
				607	Government	Gairmumkin Paytan	6767.0309
				549	Government	Gairmumkin Sadak	518.7786
				337	Government	Gairmumkin Rasta	161.7004
				342	Government	Gairmumkin Rasta	838.6523
				348	Government	Gairmumkin Paytan	1513.037
				347	Government	Gairmumkin Paytan	51.2257
				69	Government	Gairmumkin Rasta	94.5456
				156	Government	Gairmumkin Rasta	906.1112
				295	Government	Gairmumkin Paytan	679.2714
			(4) Mangla	482	Private	Barani IV	15748.965
				488	Private	Barani IV	3094.7286
				584/486	Private	Barani IV	2673.8961
				485	Private	Gairmumkin Sadak	106.4394
				487	Private	Gairmumkin Sadak	80.9738
				497	Private	Barani IV	17.0302
				498	Private	Barani IV	3205.0719
				499	Private	Barani IV	13898.1963
				500	Private	Barani IV	1195.716
				456	Private	Barani IV	4798.1137
				501	Private	Barani IV	2150.6054
				459	Government	Gairmumkin Rasta	614.1943
				455	Private	Barani IV	6778.9078
				452	Private	Barani IV	73.3831
				447	Private	Barani IV	8.6058
				454	Private	Barani IV	4890.4432

48234/12-3

1	2	3	4	5	6	7	8
			(5) Rajgarh Town (Sadulpura)	1303	Private	Barani III	6854.9268
				1299	Private	Barani III	3474.7128
				1302	Private	Barani III	4538.431
				1300	Private	Barani III	6070.9416
				1301	Private	Barani III	6783.2397
				2218/1360	Private	Barani III	3376.9745
				2219/1360	Private	Barani III	3376.9745
				2195/1361	Private	Barani III	8192.3131
				2196/1361	Private	Barani III	8192.3131
				1459	Private	Barani III	3376.1967
				1463	Private	Barani III	9514.7768
				1458	Private	Barani III	13580.6528
				1473	Private	Barani III	6967.0377
				1472	Private	Barani III	1148.4386
				1474	Private	Barani III	9576.011
				2315/1453	Private	Barani III	1880.0451
				2316/1453	Private	Barani III	1880.0451
				2369/2366/ 2380/1477	Private	Barani III	16789.0263
				1495	Private	Barani III	10683.3389
				1496	Private	Barani III	6370.0807
				1498	Private	Barani III	1498.1366
				1535	Private	Barani III	7157.0708
				1537	Private	Barani III	310.2126
				2268/1538	Private	Barani III	1441.5611
				2267/1538	Private	Barani III	1441.5611
				2266/1538	Private	Barani III	5766.2444
				1530	Private	Barani III	13884.1454
				1539	Private	Barani III	1385.6494
				1529	Private	Barani III	588.4811
				1527	Private	Barani III	11565.2227
				2170/1525	Private	Barani III	504.7932
				2171/1525	Private	Barani III	504.7932
				1509	Private	Barani III	11036.2728
				1510	Private	Barani III	38.8307
				1512	Private	Barani III	9355.9836
				1363	Government	Gairmumkin Rasta	906.7591
				1464	Government	Gairmumkin Rasta	490.3483
				1478	Government	Gairmumkin Rasta	831.5706

1	2	3	4	5	6	7	8
				1501	Government	Gairmumkin Rasta	902.5707
			(6) Khemana	114	Private	Barani III	746.2699
			(7) Gagour	146	Private	Barani III	4463.171
				145	Private	Barani III	1777.9613
				144	Private	Barani III	9412.4647
				143	Private	Barani III	2612.7114
				142	Private	Barani III	5263.9663
				151	Private	Gairmumkin Sadak	1976.6475
				422/153	Private	Barani III	335.849
				423/153	Private	Barani III	335.849
				420/152	Private	Gairmumkin Sadak	5047.533
				421/152	Private	Gairmumkin Sadak	5047.533
			<b>Total Area</b>				<b>311903.3881</b>

[F. No. NHAI/PIU/Reengus/NH-65/2012]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.